



नेहरु युवा केन्द्र संगठन Nehru Yuva Kendra Sangathan

स्वायत्तशासी संस्था An Autonomous Body under the
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय Ministry of Youth Affairs and Sports
भारत सरकार Government of India



भर्ती हेतु ऑन-लाईन परीक्षा

1. सहायक निदेशक / जिला युवा समन्वयक (DYC)
2. जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर
3. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
4. सहायक
5. पुस्तकालय अध्यक्ष
6. स्टेनोग्राफर ग्रेड II
7. कंप्यूटर ऑपरेटर
8. लेखा लिपिक सह टंकक
9. अवर श्रेणी लिपिक
10. मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)

सूचना पुस्तिका

इस पुस्तिका में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी विविध पहलुओं के ब्यारे और संबंधित विषयवस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जिसमें आप सम्मिलित होने जा रहे हैं। आपको इस पुस्तिका का ध्यान से अध्ययन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मिलेगी।

इस ऑनलाइन परीक्षा में निम्नानुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प प्रश्नावलियां होंगी :

लेवल 10 - सहायक निदेशक / जिला युवा समन्वयक (DYC) :

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	अंग्रेजी भाषा	40	40	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
5.	भारतीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विधिक, राजनैतिक वातावरण तथा सामुदायिक एवं युवा विकास कार्यक्रम की समझ	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	

लेवल 7 - जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	अंग्रेजी भाषा	40	40	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
5.	व्यावसायिक ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	

लेवल 7 - वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	अंग्रेजी भाषा	40	40	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
5.	व्यवसायिक ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	

लेवल 6 - सहायक और स्टेनोग्राफर ग्रेड II

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	50	50	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य ज्ञान	50	50	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	अंग्रेजी भाषा	50	50	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	50	50	हिन्दी व अंग्रेजी	

लेवल 6 - पुस्तकालय अध्यक्ष

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	अंग्रेजी भाषा	40	40	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
5.	व्यवसायिक ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	

लेवल 5- कंप्यूटर ऑपरेटर

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	अंग्रेजी भाषा	40	40	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
5.	बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	

लेवल 4 - लेखा लिपिक सह टंकक (ACT) :

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	लेखा ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	अंग्रेजी भाषा	40	40	अंग्रेजी	
4.	कंप्यूटर ज्ञान	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
5.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40		

लेवल 2 - अवर श्रेणी लिपिक

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य जागरूकता	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	सामान्य अंग्रेजी	40	40	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	हिन्दी व अंग्रेजी	

लेवल 1 - मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS):

अनु. क्र.	प्रश्नावली के नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	माध्यम	अवधि
1.	तर्कशक्ति	25	25	हिन्दी व अंग्रेजी	120 मिनट
2.	सामान्य जागरूकता	50	50	हिन्दी व अंग्रेजी	
3.	सामान्य अंग्रेजी	50	50	अंग्रेजी	
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	25	25	हिन्दी व अंग्रेजी	

परीक्षा के लिए समय 120 मिनट है; तथापि लागिंग इन, प्रवेश पत्र संग्रहण, निर्देश पढ़ना आदि के लिए आपको परीक्षा स्थल में लगभग 180 मिनट रहना पड सकता है। अंग्रेजी भाषा/सामान्य अंग्रेजी के अतिरिक्त सभी प्रश्नावलियां अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएंगी। 120 मिनट के भीतर आप किसी भी समय किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सभी प्रश्नों में बहुविकल्प होंगे। प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा। आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है और जिस विकल्प को आप उपयुक्त/सही समझते हैं उस पर 'माऊस क्लिक' करना है। आपने जिस विकल्प को क्लिक किया है वह उस प्रश्न का आपका उत्तर माना जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देंगे तो दंड के स्वरूप आपके अंकों में कटौती की जायेगी। ऐसे किसी भी प्रश्न के निर्धारित अंकों में से, जिसका आपने गलत उत्तर दिया है, दंड के रूप में 1/4 (एक चौथाई) अंक काट लिए जायेंगे।

ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर, निम्न प्रक्रिया को अपनाकर निकाले जाते हैं :

- गलत उत्तरों के लिए दंड लगाने के बाद, संशोधित अंकों की गणना हेतु प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या पर विचार किया जाता है।
- समीकृत अंकों की गणना हेतु, विभिन्न सत्रों में हुई प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, कठिनाई में सूक्ष्म अंतर, यदि कोई है, का ध्यान रखने के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त संशोधित अंकों को समतुल्य किया जाता है।*

* अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्नावली में प्राप्त समीकृत अंकों को सभी फॉर्मों के अंकों के वितरण पर विचार करते हुए बेस फॉर्म से समीकृत किया जाता है।

- प्रत्येक प्रश्नावली एवं परीक्षा में अंतिम अंकों को दशमलव बिन्दू सहित दो अंकों तक रिपोर्ट किया जाता है।

नोट : कटऑफ दो चरणों में लागू होते हैं :

- अलग-अलग प्रश्नावली के अंकों पर
- कुल अंकों पर

कृपया नोट करें कि इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्न केवल उदाहरण हैं सर्वांगपूर्ण नहीं हैं। वास्तविक परीक्षा में प्रश्न अधिक कठिन या अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, जिनका कि यहाँ वर्णन नहीं किया गया हो। प्रश्नों की कठिनाई पदों के स्तर के अनुसार होगी।

नमूने के कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं ।

तर्कशक्ति

प्र.1-5. नीचे दी गई जानकारी पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ?

एक प्रसिद्ध नाटककार के छह नाटक A, B, C, D, E और F सोमवार से शनिवार तक हर दिन एक खेला जाएगा । नाटकों का कार्यक्रम निम्नलिखित के अनुसार होगा ।

- (1) जिस दिन E खेला जाए, A उससे पूर्ववर्ती दिन को खेला जाना चाहिए
- (2) C मंगलवार को नहीं खेला जाना चाहिए
- (3) B उस दिन होना चाहिए जो F के मंथन के बाद वाला दिन हो
- (4) D केवल शुक्रवार को खेला जाना चाहिए और उसीसे तुरंत पहले B नहीं खेला जाना चाहिए
- (5) E कार्यक्रम के अंतिम दिन नहीं खेला जाना चाहिए

प्र.1. सोमवार से खेले जाने के क्रम में नाटकों का कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है ?

- (1) E A B F D C
- (2) A F B E D C
- (3) A F B C D E
- (4) F A B E D C
- (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

प्र.2. नाटक C मंगलवार के अतिरिक्त निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किस दिन नहीं खेला जा सकता है ?

- (1) सोमवार
- (2) बुधवार
- (3) गुरुवार
- (4) शुक्रवार
- (5) शनिवार

प्र.3. नाटक D नाटकों के निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच है ?

- (1) C एवं E
- (2) E एवं F
- (3) A एवं E
- (4) B एवं E
- (5) C एवं F

प्र.4. निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सोमवार को है ?

- (1) E
- (2) A
- (3) F
- (4) B
- (5) C

प्र.5. निम्नलिखित में से कौन सा नाटक B के तुरंत बाद होगा ?

- (1) F
- (2) E
- (3) D
- (4) C
- (5) A

प्र.6. नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे प्रत्येक 5 की गिनती कीजिए जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है किंतु तुरंत बाद 7 है । ऐसे कितने 5 हैं?

- 1 5 7 3 5 7 4 7 3 7 2 5 6 5 8 5 7 4 5 6 5 5 7 1 5 7 7 5 5
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 4
 - (5) 5

प्र.7. हकलाने का वाणी से वही संबंध है जो बहरेपन का निम्नलिखित से है ?

- (1) कान
- (2) श्रवणशक्ति
- (3) गुंगा
- (4) मौन
- (5) बोलना

प्र.8. निम्नलिखित श्रृंखलामें प्रश्न चिह्न के स्थान पर कौनसा अक्षर आना चाहिए ?

- G H J M ? V
- (1) T
 - (2) S
 - (3) R
 - (4) U
 - (5) Q

सामान्य ज्ञान/ सामान्य सचेतता

(जहाँ लागू हो)

प्र.1. केंद्रीय कृषि मंत्री ने NOWCAST का शुभारंभ किया । NOWCAST किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है ?

- (1) वित्तीय समाचार
- (2) मानचित्र
- (3) बीमा
- (4) बैंकिंग ऐलर्ट्स
- (5) मौसम ऐलर्ट

प्र.2. निम्न में से थाईलैंड की आधिकारिक मुद्राकौन सी है ?

- (1) बात
- (2) बाल्बोअ
- (3) सिडी
- (4) रूबल
- (5) रैन्यिम्बी

प्र.3. नरौरा परमाणु ऊर्जाकेंद्र निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में स्थित है ?

- (1) बिहार
- (2) पश्चिम बंगाल
- (3) गुजरात
- (4) तमिलनाडु
- (5) उत्तर प्रदेश

प्र.4. IRDA में अक्षर I निम्नांकित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है?

- (1) Indian
- (2) International
- (3) Insurance
- (4) Income
- (5) Institute

अंग्रेजी भाषा / सामान्य अंग्रेजी

Q.1-6. In the following passage there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each, five words are suggested, one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate word in each case.

The true (1) of rights is duty. If we all (2) our duties, rights will not be (3) to seek. If leaving duties unperformed we run (4) rights, they will (5) us like an elusive person. The more we pursue them, the farther (6) they fly.

- Q.1.** (1) end (2) source (3) joy (4) purpose (5) power
Q.2. (1) deny (2) devote (3) discharge (4) imagine (5) fulfill
Q.3. (1) far (2) close (3) easy (4) against (5) common
Q.4. (1) as (2) after (3) at (4) from (5) for
Q.5. (1) hold (2) grab (3) fight (4) escape (5) chase
Q.6. (1) off (2) can (3) did (4) could (5) towards

Directions : Read each sentence given below to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part of the sentence is your answer. If there is no error, the answer is 'No error'.

(Ignore errors of punctuations, if any)

- Q.7.** I am twenty / two years old / when I first / joined the bank. No error
 (1) (2) (3) (4) (5)
Q.8. To the Hindus / the Ganga is / holier than / any other river. No error
 (1) (2) (3) (4) (5)
Q.9. Of all the teachers / in our school / our class teacher / were very strict. No error
 (1) (2) (3) (4) (5)

संख्यात्मक अभियोग्यता

- प्र.1.** निम्नलिखित में से कौनसा अंक 4 का सटीक गुणक है ?
 (1) 27114 (2) 58204 (3) 48402 (4) 32286 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.2.** सोहनलाल ने रु. 100 प्रति रीम से पेपर के 120 रीम खरीदे। दुलाई पर खर्च रु. 480 था। उसे 50 पैसे प्रति रीम का चुंगी शुल्क और कुली को रु. 60 का भुगतान करना पड़ा। यदि वह 20% का लाभ चाहता हो तो प्रत्येक रीम का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए ?
 (1) रु. 126 (2) रु. 115.50 (3) रु. 105 (4) रु. 120 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- इसके अतिरिक्त ग्राफों और सारणियों पर भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- प्र.-3.5. निर्देश :** नीचे सारणी में 700 कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो उन 6 विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत है जिससे पदोन्नति में सहायता मिलती है। श्रेणी I सबसे अधिक है। सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिये तथा उसके नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें :

विशेषता	विभिन्न श्रेणियां देने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत					
	I	II	III	IV	V	VI
वरिष्ठता	32	17	22	19	5	5
अध्यवसाय	14	19	17	9	27	14
कार्य निपुणता	15	19	21	14	14	17
बुद्धिमत्ता	10	14	10	14	17	35
ईमानदारी	24	17	7	9	27	16
सामाजिकता	5	14	23	35	10	13

- प्र.3.** पदोन्नति के लिए किस विशेषता को सर्वोच्च श्रेणी मिली है ?
 (1) अध्यवसाय (2) वरिष्ठता (3) ईमानदारी (4) सामाजिकता (5) कार्य निपुणता
- प्र.4.** कितने कर्मचारियों ने बुद्धिमत्ता को श्रेणी III दी है ?
 (1) 119 (2) 98 (3) 77 (4) 70 (5) 10
- प्र.5.** पदोन्नति के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता किसे माना गया है ?
 (1) ईमानदारी (2) बुद्धिमत्ता (3) अध्यवसाय (4) कार्य निपुणता (5) सामाजिकता

**भारतीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विधिक, राजनैतिक वातावरण
तथा सामुदायिक एवं युवा विकास कार्यक्रम की समझ
(सहायक निदेशक / जिला युवक समन्वयक (DYC) के पद के लिए)**

- प्र.1. कौन से राज्य में आदि पेरुक्कु पर्व मनाया जाता है ?
(1) केरल (2) आंध्र प्रदेश (3) महाराष्ट्र (4) तमिलनाडु (5) तेलंगाना
- प्र.2. विदेश वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज ने 2014 में, मध्य प्रदेश के _____ से, भारतीय आम चुनाव में विजय प्राप्त की।
(1) विदिशा निर्वाचन क्षेत्र (2) उज्जैन निर्वाचन क्षेत्र (3) खंडवा निर्वाचन क्षेत्र
(4) जबलापुर निर्वाचन क्षेत्र (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.3. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य _____ है।
(1) किसानों को फसल बीमा देना
(2) ग्रामीण भारत में लगातार बिजली आपूर्ति करना
(3) ग्रामीण भारत में हर नाबालिग लड़की को बुनियादी शिक्षा देना
(4) ग्रामिण भारत में दृष्टिबाधित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना
(5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.4. भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर का नाम बताइए।
(1) खुदीराम बोस (2) पिंगली वेंकैया (3) रवींद्रनाथ टैगोर
(4) भगत सिंह (5) बेनी प्रसाद
- प्र.5. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ग्रामीण : शहरी जनसंख्या का अनुपात _____ है।
(1) 69 : 31 (2) 65 : 35 (3) 60 : 40 (4) 55 : 45 (5) 50 : 50

व्यावसायिक ज्ञान (जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद के लिए)

- प्र.1. आपके कंप्यूटर का प्रत्येक कांपोनेन्ट या तो -----
(1) सॉफ्टवेयर या CPU / RAM होता है (2) हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है
(3) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है (4) इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होता है
(5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.2. निम्नलिखित में से कौनसी एक लोकप्रिय कंप्यूटर भाषा है ?
(1) A + (2) BA + (3) C ++ (4) CA + (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.3. CPU का कार्य _____
(1) पाठ्यांश का बाह्य भंडारण उपलब्ध कराना है
(2) मुद्रित प्रति सर्जित करना है
(3) नया सॉफ्टवेयर सर्जित करना है
(4) सूचना और अनुदेशों को पढ़ना, उनका निर्वचन करना और उन्हें प्रोसेस करना है
(5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.4. ओरेकल एक _____ है।
(1) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (2) डाटा बेस (3) एंटीवायरस सॉफ्टवेयर
(4) प्रोग्राम (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.5. एक NIC डाटा को प्रथक टुकड़ों (discrete chunks) में भेजती है जिन्हें _____ कहा जाता है।
(1) सेगमेंट्स (2) सेक्शन्स (3) फ्रेम्स (4) लेयर्स (5) फ्रेगमेंट्स

व्यावसायिक ज्ञान (वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद के लिए)

- प्र.1-2.** नीचे दिये गये प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसके कुछ अंश रेखांकित कर दिये गये हैं। इस रेखांकित भाग में भाषा व्याकरण या शब्दों के गलत प्रयोग जैसी कोई त्रुटि हो सकती है। वाक्य के नीचे चार विकल्प सुझाये गये हैं जिनमें से कोई एक वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर रख देने से वह वाक्य की त्रुटि दूर कर उस वाक्य को एक सार्थक वाक्य बना देता है। वह विकल्प कौनसा है यह ज्ञात कीजिये और उसे ही उत्तर के रूप में अंकित कीजिये। यदि रेखांकित अंश में कोई त्रुटि नहीं है और उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर (5) होगा अर्थात् "संशोधन आवश्यक नहीं"।
- प्र.1.** राजू की सारी बात नाना चुप्पी लगा कर सुनते रहे।
(1) मौन व्रत धारण किये गुनते रहे (2) चुपचाप गुनगुनाते रहे
(3) ध्यानपूर्वक सुनते रहे पर बोले कुछ नहीं (4) ने यों सुनी जैसे वह किसी और से बात कर रहा हो
(5) संशोधन आवश्यक नहीं
- प्र.2.** तुमने तो इतनी सेवा की है कि ईश्वर को हार कर तुम्हारा वचन निभाना पड़ा।
(1) तुम्हारी इच्छा पूरी करनी पड़ी (2) तुम्हें बाध्य करना पड़ा
(3) तुम्हारी मजबूरी से लाभ उठाना पड़ा (4) तुम्हारे लिये विवश होना पड़ा
(5) संशोधन आवश्यक नहीं
- प्र.3-4.** नीचे दिये गये प्रश्नों में से हरेक में एक वाक्य दिया गया है जिसे (1), (2), (3) और (4) भागों में बांटा गया है। वाक्य को पढ़ कर ज्ञात कीजिये कि वाक्य में शब्दों के गलत प्रयोग, वर्तनी या व्याकरण की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक ही भाग में होगी। इस भाग का क्रमांक ही आपका उत्तर है। अगर वाक्य त्रुटिहीन है तो उत्तर (5) दीजिये अर्थात् त्रुटि नहीं।
- प्र.3.** चालीस लडकों का एक मिला जुला / ठाका उठा था और / कक्षा की छत पे टकरा कर /
(1) (2) (3)
सब का सब एकदम मेरे भीतर उतर गया था। त्रुटि नहीं
(4) (5)
- प्र.4.** सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला / का मुआयना करने के बाद में / बाहर निकले तो एक लड़की ने/
(1) (2) (3)
दौड़ कर उनका दामन पकड़ लिया। त्रुटि नहीं
(4) (5)

व्यावसायिक ज्ञान (पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए)

- प्र.1.** OPAC पद का पूरा रूप क्या है।
(1) Online Public Application Card (2) Online Public Access Catalogue
(3) Online Public Assistance Catalogue (4) Online Public Administered Catalogue
(5) इनमें से कोई नहीं

बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान (कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए)

- प्र.1.** ----- कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवायस है।
(1) प्रिन्टर (2) CPU (3) मॉनिटर (4) की बोर्ड (5) CD
- प्र.2.** RAM का पूरा रूप क्या है ?
(1) Random Adaptive Mouse (2) Random Adaptive Memory (3) Random Access Memory
(4) Random Access Mouse (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.3.** असंगत का चयन कीजिए।
(1) मॉनिटर (2) कुंजी पटल (3) फ्लॉपी ड्राइव (4) विन्डोज (5) हार्डडिस्क ड्राइव

अकाउंटेंसी ज्ञान (लेखा लिपिक सह टंकक (ACT) के पद के लिए)

- प्र.1. 'सभी खर्च नामे करना और सारी आय जमा करना' _____ हेतु लागू होता है ।
(1) वैयक्तिक खाते (2) वास्तविक खाते (3) अवास्तविक खाते
(4) नकदी खाते (5) जर्नल खाते
- प्र.2. निम्न में से कौनसी एक चालू आस्ति है ?
(1) मशीनरी (2) भूमि (3) बैंक में नकदी (4) बिल्डिंग (5) दीर्घावधि निवेश
- प्र.3. ट्रायल बैलेन्स में निम्न में से कौनसी त्रुटि प्रकट नहीं होगी ?
(1) गलत राशि लिखने (2) पूर्ण लोप संबंधी गलती
(3) किसी खाते में दो बार राशि लिखने (4) किसी खाते के गलत पक्ष में लिखने
(5) किसी खाते में तीन बार राशि लिखने
- प्र.4. नकदी बही में नामे शेष _____ है ।
(1) एक देयता (2) एक आस्ति (3) लाभ (4) आरक्षित निधि (5) व्यय
- प्र.5. रु.100,000 लागत की एक अचल आस्ति का बही मूल्य रु. 40,000 है । यह रु. 10,000 में बेची जाती है । आस्ति की बिक्री के समय मूल्यहास के लिए प्रावधान क्या है ?
(1) रु. 60,000 (2) रु. 50,000 (3) रु. 40,000 (4) रु. 30,000 (5) रु. 10,000

(अ) ऑन-लाईन परीक्षा पैटर्न का विवरण :

- (1) परीक्षा ऑनलाइन अर्थात् कंप्यूटर पर होगी ।
- (2) अंग्रेजी भाषा/ सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों के अतिरिक्त सभी प्रश्न अंग्रेजी व हिन्दी में होंगे ।
- (3) सभी प्रश्नों में बहु विकल्प होंगे । प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा । उम्मीदवार के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनकर उसे उस विकल्प को 'माऊस क्लिक' करना है जो उसे उपयुक्त/सही लगता है । क्लिक किया गया विकल्प उस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर, अंकन के लिये तभी मान्य होगा जब उम्मीदवार ने उसको "Save & Next" अथवा "Mark for Review & Next" के साथ सेव किया हो ।
- (4) सर्वर पर घड़ी सेट की गई है और आपके स्क्रीन पर ऊपरी दाएं कोने में काउंट डाउन टाइमर आपके लिए परीक्षा पूरी करने के लिए शेष समय दर्शाएगा । घड़ी पूरी तरह चल जाने पर परीक्षा का समय स्वतः पूरा हो जाता है आपको अपनी परीक्षा समाप्त या सबमिट नहीं करनी है ।
- (5) स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट, प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है:

1 आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं।

2 आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

3 आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

4 आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिह्नित किया है।

5 प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिह्नित है, उसका मूल्यांकन किया जायेगा ।

पुनर्विचार के लिए चिह्नित (Marked for Review) स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जिसे आपने प्रश्न को दुबारा देखने के लिए सेट किया है । यदि आपने किसी प्रश्न के लिए उत्तर चुना है जिसे पुनर्विचार के लिए चिह्नित किया है, तब मूल्यांकन में उस उत्तर पर विचार किया जाएगा ।

- (6) उत्तर देने के लिए प्रश्न चुनने के लिए आपको निम्नलिखित में से एक करना है :
- उस नंबर के प्रश्न पर सीधे जाने के लिए आपके स्क्रीन के दाएं प्रश्न पैलेट पर प्रश्न नंबर पर क्लिक कीजिए । नोट करें कि इस विकल्प के प्रयोग पर वर्तमान प्रश्न का आपका उत्तर **सेव नहीं होता** है ।
 - वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने के लिए और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए **'Save & Next'** पर क्लिक कीजिए।
 - वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने, उसे रिव्यू हेतु मार्क करने और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए **'Mark for Review & Next'** पर क्लिक कीजिए ।
- (7) अपना उत्तर चुनने के लिए, एक विकल्प बटन पर क्लिक कीजिए ।
- (8) अपना उत्तर बदलने के लिए दूसरा वांछित विकल्प बटन क्लिक कीजिए ।
- (9) अपना उत्तर सेव करने के लिए आपको **Save & Next** पर क्लिक करना चाहिए ।
- (10) चुना गया उत्तर डिसिलेक्ट करने के लिए, चुने गए विकल्प पर फिर से क्लिक कीजिए या **Clear Response बटन** पर क्लिक कीजिए।
- (11) रिव्यू के लिए प्रश्न मार्क करने के लिए **Mark for Review & Next** पर क्लिक कीजिए । यदि मार्कड फोर रिव्यू प्रश्न के लिए उत्तर चुना जाता है तो अंतिम मूल्यांकन में उत्तर पर विचार किया जाएगा ।
- (12) किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए, पहले प्रश्न सिलेक्ट कीजिए और फिर नये उत्तर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद **Save & Next** बटन पर क्लिक कीजिए ।
- (13) जो प्रश्न उत्तर देने के बाद 'सेव' या 'रिव्यू' के लिए 'मार्क' किए गए हैं, सिर्फ वही प्रश्न मूल्यांकन के लिए कन्सिडर किए जाएंगे ।
- (14) स्क्रीन के टॉप बार पर सेक्शन्स डिस्प्ले किए जाएंगे । सेक्शन के नाम पर क्लिक करके सेक्शन्स के प्रश्न देखे जा सकते हैं । जो सेक्शन आप देखेंगे वह हाइलाइट होगा ।
- (15) किसी सेक्शन के अंतिम प्रश्न पर **Save & Next** बटन क्लिक करने के बाद आप आटोमैटिकली अगले सेक्शन के पहले प्रश्न पर पहुंच जाएंगे।
- (16) सेक्शन के प्रश्नों के स्टेटस को देखने के लिए सेक्शनों के नामों पर आप माउस कर्सर मूव कर सकते हैं ।
- (17) आपकी सुविधानुसार परीक्षा के दौरान आप कभी भी सेक्शनों और प्रश्नों के बीच शफल कर सकते हैं ।
- (18) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि "टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर" के निर्देशों का ध्यान से अनुसरण करें । यदि कोई उम्मीदवार निर्देशों/नियमों अनुसरण नहीं करता है तो इसे कदाचार/अनुचित तरीके अपनाने का मामला माना जाएगा और उम्मीदवार ने.यु.के.सं द्वारा निर्णीत अवधि के लिए परीक्षाओं में बैठने से डिबारमेंट के लिए पात्र होगा ।
- (19) उम्मीदवार केवल परीक्षा शुरू होने से पहले टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है । परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी क्वेरी (शंका) का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।
- (20) 120 मिनट की समाप्ति के बाद, उम्मीदवार ना ही किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और ना ही अपने उत्तर जांच पाएंगे।
- (21) कृपया नोट करें :-
- परीक्षा का पूर्ण समय समाप्त होने तक उम्मीदवारों को "फाइनली सबमिट" करने नहीं दिया जाएगा ।
 - एक बार परीक्षा शुरू हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में कोई उम्मीदवार की-बोर्ड की किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करेगा क्योंकि इससे परीक्षा लॉक हो जाएगी ।

(ब) सामान्य निर्देश :

- (1) कृपया प्रवेश पत्र में तारीख, समय और परीक्षा स्थल का पता नोट करें ।
- (2) परीक्षा स्थल की पृष्टि करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा से एक दिन पहले आप परीक्षा स्थल जाकर देख सकते हैं ताकि परीक्षा के दिन आप समय पर रिपोर्ट कर सकें ।
- (3) आपका हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाकर प्रवेश पत्र अपने साथ परीक्षा स्थल पर लाया जाना चाहिए। (अच्छा होगा कि वही फोटो चिपकायें, जिसे पंजीकरण के समय अपलोड किया गया हो ।)
- (4) परीक्षा स्थल पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और ने.यु.के.सं प्रतिनिधि के निर्देशों का आपको निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए । आप निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आपको अयोग्य ठहराया जाएगा और परीक्षा स्थल छोड़कर जाने के लिए कहा जाएगा।
- (5) परीक्षा के दौरान कैल्क्युलेटर (अलग या घड़ी के साथ), किताबों, नोटबुकों या लिखे नोटस, सेल फोन (कैमेरा सहित या रहित) या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (6) आपके अपने फोटोग्राफ को इस प्रवेश-पत्र पर चिपका कर और वर्तमान में वैध फोटो युक्त पहचान का मूल प्रमाण और उसकी एक फोटोकापी साथ लाएं - यह अनिवार्य है । कृपया यह प्रवेश-पत्र तथा पहचान के प्रमाणपत्र की फोटो कापी स्टेपल करके पर्यवेक्षक को सौंप दे । वर्तमान में वैध फोटो पहचान प्रमाण हैं-पैनकार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर्स कार्ड/फोटोग्राफ युक्त बैंक पास बुक/आधिकारिक लेटर हेड पर गजटेड अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान का प्रमाण/आधिकारिक लेटर हेड पर जन प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान का प्रमाण/मान्यता प्राप्त कालेज/यूनिवर्सिटी द्वारा जारी वैध वर्तमान पहचान पत्र/फोटोग्राफ युक्त आधार/ई-आधार कार्ड/कर्मचारी पहचान पत्र/फोटोग्राफ युक्त बार कौंसिल पहचान पत्र । **कृपया नोट करें - राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान-प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।** कृपया ध्यान दें कि प्रवेश पत्र पर लिखा गया आपका नाम (जैसा आपने पंजीकरण की प्रक्रिया में दिया है) फोटो पहचान प्रूफ पर दिखते नाम के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए । महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के पश्चात अपने पहले/अंतिम/बीच के नाम में परिवर्तन किया हो वे इस पर विशेष ध्यान दें । यदि प्रवेश पत्र पर दिए गए नाम और फोटो पहचान प्रूफ में यदि जरा भी बेमेल हुआ तो आपको परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा । जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, यदि वे बदलाव प्रस्तुत करने वाला राजपत्र अधिसूचना/अपना विवाह प्रमाण पत्र/शपथपत्र प्रस्तुत करते हैं तो ही उन्हें अनुमति दी जायेगी ।
- (7) बायोमीट्रिक डाटा (अंगूठे का निशान और फोटोग्राफ) परीक्षा स्थल पर परीक्षा से पहले एवं बाद में लिया जायेगा । इस संदर्भ में कृपया निम्नलिखित का ध्यान रखें:
 - (क) यदि उंगलियों पर कोई परत हो (स्याही/मेहंदी/रंग आदि लगी हुई) तो उन्हें धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा की तिथि से पहले उन पर लगी परत उतर जाए ।
 - (ख) यदि उंगलियां मैली या धूलभरी हों तो फिंगर प्रिंट (बायोमीट्रिक) लिए जाने से पहले उन्हें धोकर सुखा लेना सुनिश्चित करें।
 - (ग) सुनिश्चित कर लें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों। यदि उंगलियां नम हों तो प्रत्येक उंगली पोंछकर उसे सुखा लें।
 - (घ) यदि कैप्चर किया जाने वाला अंगूठा चोटिल/क्षतिग्रस्त हो तो तुरंत परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें।
(इन बिन्दुओं में से किसी का भी पालन न करने पर परीक्षा में शामिल होने से वंचित रखा जाएगा ।)
- (8) सही व गलत उत्तरों के पैटर्न में समानता का पता लगाने के लिए आपके प्रत्युत्तरों का परीक्षा में सम्मिलित अन्य उम्मीदवारों के साथ विश्लेषण किया जायेगा § यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यह अनुमान लगता/निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्युत्तरों में सहभागिता की गई है और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं है तो आपको अयोग्य ठहराया या उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। नकल करते, सहायता लेते या देते या उम्मीदवार के लिए अनुचित ऐसा व्यवहार करते हुए उम्मीदवार के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा । आगे ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ ने.यु.के.सं उसके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है ।
- (9) आपको अपने साथ एक बाल-पाइंट पेन लाना चाहिए । परीक्षा के अंत में अपने उत्तर सबमिट करने से पहले जिन प्रश्नों को आप रिव्यू करना चाहते हैं उनके प्रश्न नंबर लिखने या रफ वर्क करने के लिए आपके कागज का एक पन्ना दिया जाएगा। परीक्षा पूरी होने के बाद स्थल छोड़ने से पहले आपको कागज का यह पन्ना टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दे देना है ।

- (10) परीक्षा के प्रशासन में कुछेक समस्या होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो कि परीक्षा संचालन और/अथवा सृजित करने की कठिनाई के तौर में सामने आ सकती है। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं के समाधान का पूरा प्रयास किया जायेगा, जिसमें उम्मीदवारों के मूवमेंट, परीक्षा में विलम्ब होना शामिल। पुनः परीक्षा का आयोजन स्पष्ट रूप से परीक्षा संचालन के विवेक पर निर्भर है। उम्मीदवार पुनः परीक्षा के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। परीक्षा संचालन की विलम्बित प्रक्रिया में उम्मीदवारों के मूव करने की इच्छा नहीं होने अथवा भाग लेने की इच्छा नहीं होने पर उन्हें प्रक्रिया से सरसरी पर निरस्त कर दिया जायेगा।
- (11) यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र में आयोजित होती हैं तो सभी सत्रों में प्रयुक्त विभिन्न टेस्ट बैटरियो कि डिफिकल्टी स्तर के अंतर को एडजस्ट करने के लिए विभिन्न सत्रों के स्कोर को इक्वेट किया जाएगा। यदि सेंटर पर किसी अभ्यर्थी के लिए नोड क्षमता कम है या कोई तकनीकी खामी होती है तो एक से अधिक सत्र की आवश्यकता हो सकती है।
- (12) कृपया ध्यान दें, एक उम्मीदवार केवल एक बार ही ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है। एक से अधिक बार परीक्षा देने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी को एक से अधिक प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाए तो वह परीक्षा में प्रवेश पत्र पर दिए गए समयानुसार केवल एक बार ही शामिल हो तथा अन्य प्रवेश पत्रों को लौटा दें।
- (13) परीक्षा की सामग्री या उसकी किसी अन्य जानकारी, पूर्णतया या अंशतः को प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुनः प्रस्तुत करने, ट्रांसमिट करने, स्टोर करने या उसके ट्रांसमिशन और स्टोरेज को सुगम बनाने वाले या परीक्षा कक्ष में दिए गए कागज-पत्र को ले जाने वाले या परीक्षा सामग्री के अनधिकृत कब्जाधारी पर अभियोग चलाया जा सकता है।
- (14) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में, उम्मीदवार द्वारा गलत सूचना प्रदान करने और/अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले में, उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भविष्य में उसे ने.यु.के.सं की किसी भी भरती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। यदि ऐसे मामलों का वर्तमान चयन प्रक्रिया में पता नहीं चलता है लेकिन बाद में पता चलता है तो ऐसी अयोग्यता को पूर्वव्यापी प्रक्रिया से लागू किया जाएगा।

याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु :

आपको अपने साथ निम्नलिखित लाने की सूचना दी जाती है :

- (1) **मूल प्रति** प्रवेश पत्र जिस पर फोटो चिपका हुआ हो और फोटो ID कार्ड जैसे कि 6 बिंदु में निर्धारित किया गया है।
- (2) एक बाल पाइंट पेन।

आपको शुभकामनाएं